

# भारतीय जैन संघटना

**BJS**  
Bharatiya Jain Sanghatana

Head Office:

Ground Floor, Muttha Towers, Loop Road, Near Don Bosco Church, Yerawada, Pune 411006

Tel.: 020 41200600, 41280011, 41280012

Website: www.bjsindia.org E mail: info@bjsindia.org Facebook: www.facebook.com/BJSIndia

दिनांक - २ अगस्त, २०१६

सादर जय जिनेन्द्र,

भारतीय जैन संघटना (BJS) पिछले ३० वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की दृष्टि से राज्याध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष व गाँव अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया मुख्य कार्यालय पुणे से होती है। संघटना में पूर्व से ही सदस्य बनाने की प्रक्रिया न होने की वजह से, मैं इस संघटना का सदस्य हूँ या यह संघटना मेरी है, ऐसा भाव आमतौर पर समाजबंधुओं में नजर नहीं आता। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी अपने-अपने गुप में ही निर्णय लेते हैं। जिससे समाज के सर्वसामान्य व्यक्ति संघटना से जुड़ नहीं पाते।

उपरोक्त भूमिका में बदल करने की दृष्टि से, संघटना को ज्यादा से ज्यादा स्थान पर स्थापित करने की दृष्टि से, संघटना में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने की दृष्टि से, बड़े शहरों में संघटना की एक शाखा स्थापित करने की अपेक्षा विभिन्न एरिया या सोसायटी में संघटना के 'चैप्टर' स्थापन कर मुख्य कार्यालय, पुणे से जोड़ा जा सकता है। इस दृष्टि से गाँव-गाँव, शहर-शहर में संघटना के चैप्टर तैयार करना, चैप्टर में सभी संप्रदाय के लोगों को सदस्य बनाना, जिससे संघटना अपनी है के भाव का निर्माण हो सके। इस तरह BJS के सभी कार्यक्रमों का लाभ घर-घर पहुँच सकेगा। हाल ही में BJS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रत्येक गाँव में व शहरों के प्रत्येक एरिया में चैप्टर गठन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने राज्य में संघटना के राज्यस्तर, विभागीय स्तर व जिला स्तर के पदाधिकारियों को साथ लेकर गाँव-गाँव का दौरा करें, समस्त जैन समाज की मीटिंग लेकर (संघटना हो या न हो) समाज को BJS के कार्यों की विस्तृत जानकारी देकर संविधान के अनुरूप BJS के चैप्टर की शुरुआत करने की कृपा करें। प्रत्येक चैप्टर में कम से कम ३० सदस्य (पुरुष, महिला एवं युवा वर्ग) होना आवश्यक है। इस तरह अनेक चैप्टर शुरू किये जा सकेंगे, समाज को संघटना से जोड़ा जा सकेगा तथा संघटना के कार्य घर-घर तक पहुँच सकेंगे। यह चैप्टर चाहे तो पंजीकृत या अपंजीकृत दोनों में से किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं। संघटना के आप एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं अतः सदस्यता सहित चैप्टर शुरू करवाने की जिम्मेदारी आप पर है। कृपया अपने राज्य का दौरा कर राज्य के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व मुख्य कार्यालय को सभी जानकारी प्रेषित करने की कृपा करें। चैप्टर संविधान की अंग्रेजी कापी आपको पूर्व मेल में भेजी जा चुकी हैं। इस पत्र के साथ चैप्टर गठन का निवेदन पत्र संलग्न है।

५ व ६ नवम्बर में आयोजित होने वाले BJS के राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व महाराष्ट्र राज्य में २०० चैप्टर शुरू करने का लक्ष्य रखियेगा। धन्यवाद।

आपका विनम्र,



प्रफुल्ल पारख  
राष्ट्रीय अध्यक्ष